



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]  
No. 51]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 1983/आश्विन 21, 1905  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1983/ASVINA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग, संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1983

आ. अ. 93(अ).—महाराष्ट्र राज्य के 46-सांगली संसदीय  
निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री वसंतराव पाटिल द्वारा  
त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण लोक सभा में एक रिक्ति हो  
गई है ;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का  
43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में,  
निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि  
वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 17 नवम्बर, 1983  
(बृहस्पतिवार) से पूर्व उक्त अधिनियम और तद्धीन बाएँ गए  
नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित  
कर दें ।

[सं. 100/महा.-लोक.स./1/83(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th October, 1983

O.N. 93(E).—Whereas a vacancy has occurred in  
the House of the People by reason of the resignation  
of Shri Vasant Rao Patil, a member elected to that  
House from 46-Sangli Parliamentary Constituency  
in the State of Maharashtra;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of  
sub-section (1) of section 149 of the Representation  
of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election  
Commission hereby calls upon the said constituency  
to elect a person to fill the said vacancy before 17th  
November, 1983 (Thursday), in accordance with the  
provisions of the said Act and the Rules orders made  
thereunder.

[No. 100|MT-HP|1|83(1)]

आ. अ. 94(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  
(1951 की 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन

आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/महा.-लो.स./1/83(1) तारीख 13 अक्टूबर, 1983 के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य के 46-सांगली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख  
20 अक्टूबर, 1983  
(बृहस्पतिवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख  
21 अक्टूबर, 1983  
(शुक्रवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख  
24 अक्टूबर, 1983  
(सोमवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा  
13 नवम्बर, 1983  
(रविवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा  
17 नवम्बर, 1983  
(बृहस्पतिवार)

नियत करता है।

[सं. 100/महा.-लो.स./1/83(2)]

O.N. 94(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 46-Sangli Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra in pursuance to its notification No. 100/MT-HP/1/83(1) dated 13th October, 1983 :—

- (a) the 20th October, 1983 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) The 21st October, 1983 (Friday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 24th October, 1983 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th November, 1983 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 17th November, 1983 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MT-HP/1/83(2)]

आ. अ. 95(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/महा.-लो.स./1/83(1) तारीख 13 अक्टूबर, 1983 के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य के 46-सांगली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उक्त समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं. 100/महा.-लो.स./1/83(3)]

आदेश से,  
के गणेशन, सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग।

O.N. 95(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken at the bye-election to the House of the People from 46-Sangli Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/1/83(1) dated 13th October, 1983.

[No. 100/MT-HP/1/83(3)]

By order  
K. GANESAN, Secy.  
to the Election Commission of India